

ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक निर्देश

सभी उम्मीदवारों के लिए

- शिक्षता प्रशिक्षण की विस्तृत विज्ञापन, आवश्यक योग्यता एवं ऑनलाइन आवेदन के लिए बीएचईएल भोपाल की वेबसाइट www.bhelbpl.co.in या वेबसाइट www.bhelbpl.co.in/bplweb_new/careers/index.html पर लग इन (login) करें।
- ऑनलाइन आवेदन से पहले कृपया यह सुनिश्चित करें कि आप प्रशिक्षण के लिए विज्ञापन में दी गई आवश्यक योग्यता रखते हैं।
- ऐसे आवेदक जिन्होंने आई.टी.आई. की परीक्षा मार्च 2014 के पूर्व उत्तीर्ण की है वे शिक्षता प्रशिक्षण के लिए अर्ह नहीं हैं अतः ऐसे अभ्यर्थी आवेदन न करें ।
- अभ्यर्थी बी.एच.ई.एल. भोपाल के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र (APPLY ONLINE) भरते समय आई.टी.आई. के सभी सेमेस्टर में अर्जित अंकों को जोड़कर प्राप्तांक में भरें तथा सभी सेमेस्टर के अधिकतम अंकों को जोड़कर अधिकतम अंक(maximum marks) कॉलम में भरें।
- सभी अभ्यर्थियों के पास वैध ईमेल (email ID) एवं मोबाईल नंबर होना आवश्यक है जिसे अभ्यर्थी को कम से कम 6 माह तक वैध रखना होगा। बीएचईएल भोपाल द्वारा सभी पत्राचार आपके द्वारा दिये गए ईमेल (email ID) एवं मोबाईल नंबर पर ही किया जाएगा।
- ऑनलाइन आवेदन भरते समय ध्यान रखें कि लाल एस्ट्रिक (*) चिन्ह लगे हुये बिन्दु आवश्यक रूप से भरना है । सफलता पूर्वक फार्म भरने के पश्चात, एक अद्वितीय पावती क्रमांक (acknowledgement number) प्राप्त होगा एवं आपको फोटो अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। आपअपनी हाल ही में ली गई पासपोर्ट आकार की फोटो (अधिकतम 1 MB) को अपलोड करें।
- उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि पावती पर्ची का प्रिंट आउट लेने के पश्चात उस पर हस्ताक्षर करें तथा इस पावती पर्ची को भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित रखें ।
- पावती पर्ची की 2 प्रति प्रिंट लें और एक प्रति के साथ निम्नलिखित आवश्यक स्वयं द्वारा सत्यापित दस्तावेज़ संलग्न कर नीचे दिये गए पते पर साधारण डाक द्वारा भेजें एवं दूसरी प्रति अपने पास सुरक्षित रखें।

सत्यापन हेतु	आवश्यक प्रमाण पत्र	किसके लिए लागू
जन्म तिथि	दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र / अंकसूची	सभी अभ्यर्थियों के लिए
दसवीं कक्षा	अंकसूची /प्रमाण पत्र	
आई टी आई/एन टी सी	अंकसूची /प्रमाण पत्र (सभी सेमेस्टर की मार्कशीट/अंकसूची)	
आधार कार्ड	आधार कार्ड की कॉपी	
ncvtmis रजिस्ट्रेशन	ncvtmis रजिस्ट्रेशन नंबर	
मूल निवासी	मध्यप्रदेश के मूल निवासी/ स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र	
जाति / वर्ग	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए
अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) का जाति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में	अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर): जिन उम्मीदवारों के अभिभावकों की कुल वार्षिक आय पिछले 3 वर्षों से निरंतर रूप 6 लाख से अधिक नहीं है ।

		(DOPT OM No. 36033/3/2004- Estt (Res) dated 27 th May 2013)
शारीरिक विकलांगता	निर्धारित प्रारूप में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी विकलांगता का प्रमाण पत्र	शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों के लिए
मेडिकल टोकन	नीचे दिये हुये निर्देशानुसार	बीएचईएल भोपाल के कर्मचारियों के पुत्र / पुत्री / पति / पत्नी के लिए
बारहवीं कक्षा	अंकसूची /प्रमाण पत्र	यदि पास किया है

- सभी प्रमाण पत्र दिनांक के आधार पर वैध होने चाहिए।
- शिक्षता प्रशिक्षण के लिए केवल ऐसे आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा जो कि पावती पर्ची एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ बीएचईएल भोपाल के निम्नलिखित पते पर साधारण डाक द्वारा निर्धारित दिनांक **07/02/2017** तक प्राप्त होते हैं :

पोस्ट बॉक्स नंबर 35

पोस्ट ऑफिस पिपलानी, बीएचईएल भोपाल

पिन - 462022 (मध्य प्रदेश)

- लिफाफे के ऊपर “ **आई टी आई (ट्रेड) अप्रेंटिस 2017-18 के लिए आवेदन** ” लिखा होना चाहिए।
- आप अपने आवेदन कि स्थिति हमारी ऊपर दी गई बेवसाइट पर उपलब्ध आइकॉन “Status of Application” द्वारा देख सकते हैं ।
- किसी भी तरह की जानकारी/पूछताछ के लिए ईमेल bhelatr@bhelbpl.co.in पर संपर्क कर सकते हैं ।

केवल बीएचईएल भोपाल के कर्मचारियों / संविदा श्रमिक के आश्रितों (पुत्र / पुत्री / पति / पत्नी) के लिए

- (i) बीएचईएल भोपाल के कर्मचारियों के आश्रितों (पुत्र / पुत्री / पति / पत्नी) को उच्चतम आयु में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी ।
- (ii) बीएचईएल भोपाल के कर्मचारियों के आश्रितों (पुत्र / पुत्री / पति / पत्नी) को निम्नतम (Minimum Marks) में भी छूट होगी ।
- (iii) बीएचईएल भोपाल के कर्मचारियों (सेवारत/सेवानिवृत्त/मृतक) के पुत्र / पुत्री / पति / पत्नी को उपरोक्त दस्तावेजों के साथ बीएचईएल भोपाल द्वारा जारी मेडिकल टोकन की प्रति या कर्मचारी के आश्रित होने का दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा आपको बीएचईएल भोपाल के कर्मचारी का आश्रित (Ward) नहीं माना जाएगा।
- (iv) संविदा श्रमिक को जारी पहचान पत्र एवं ई.एस.आई.कार्ड जिसमें आपका नाम व फोटो हो की प्रति।